

August 28, 2020

BSE Limited

Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G-Block,

Bandra -Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai-400051

Scrip Code: 502820/DCM

Sub: Copy of Newspaper publication of Notice of 130th Annual General Meeting (AGM), Book Closure and Remote E-voting.

Dear Sir,

In terms of relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith copy of newspaper publication, in respect of Notice of 130th AGM, Book Closure and Remote e- voting as published in Financial Express- English (Delhi and Mumbai Editions) and Jansatta- Hindi (Delhi Edition) newspaper on August 27, 2020 for your records.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Yours truly,

For DCM Limited

Vimal Prasad Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

FCS 6380

mail id: investors@dcm.n

FINANCIAL EXPRESS

DCM LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN-L74899DL1889PLC000004 Ph: 011-41539170 Email Id: investors@dcm.in Website: www.dcm.in

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of DCM Limited)

(For the attention of Equify, Shareholders of DCM Limited)

Notice is hereby given that the 130th Annual General Meeting (AGM) of the Members of DCM Limited will be held on Friday, September 25, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the AGM Notice dated June 26, 2020 without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") AGM, inter-alia

Pursuant to above mentioned MCA & SEBI Circular(s) Notice of 130th AGM, inter-alia, explaining the procedure and instructions for participating into the AGM through VC/OAVM and also the procedure and instructions for electronic voting (e-voting) containing the Business Items to be transacted and explanatory statement along with the Annual Report 2019-20 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circular(s) for the year 2020. The electronic mailing of the afforesaid documents is expected to be completed on or electronic mailing of the aforesaid documents is expected to be completed on or before September 2, 2020.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company is pleased to provide remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM by NSDL to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the Notice of AGM.

their vote electronically for all the resolutions as set out in the Notice of AGM. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held, with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving Licence, Election Card, Passport, utility bill or any other Government document in support of the address proof of the Member as registered with the Company, for receiving the Annual Report of the F.Y. 2019-20 along with AGM Notice by email, to investors@dcm.in or admin@mcsregistrars.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository. holding shares in demat form can update their email address with their Depository

Please note that the updation/registration of email addresses on the basis of the above scanned documents will be only for the purpose of sending the notice of 130** AGM and Annual Report for 2019-20 and thereafter shall be disabled from the records of the RTA immediately after the 130** AGM. You will therefore be required to send the Email ID updation request along with hard copies of the aforesaid documents to RTA for actual registration in the records to receive all the future communications including Annual Reports, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

All Members are informed that:

- the remote e-voting shall commence on 22.09.2020 at 9.00 A.M;
- the remote e-voting shall end on 24.09.2020 at 5.00 PM.;
- the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-vote during the AGM is 18.09.2020;
- e-vote during the AGM is 16.09.2020, any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after e-mailing of Notice by the Company and holding physical/demat shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company at admin@mcsregistrars.com. The same procedure may be followed by Members holding shares in Demat/Physical mode who have not registered/updated their Email IDs with verification details such as folio no., DP ID/Client ID, PAN (second depay), demat account temperature. d (scanned copy), demat account statement;
- the remote e-voting shall end at 5.00 PM. on 24.09.2020 and thereafter shall be disabled by NSDL. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the e-voting facility will be available during the AGM also for the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again;
- only a person, whose name is recorded in the Register of member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM;
- Ms. Pragnya Parimita Pradhan, Proprietor of Pragnya Pradhan & associate, Company Secretaries (CP No. 12030) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent
- If a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password/PIN for casting vote is to be used. If a Member forgets password, the same is to be reset by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 or drop an email at evoting@nsdl.co.in.

The AGM Notice and Annual Report will be available on the websites of (i) the Company at www.dcm.in (ii) NSDL at www.evoting.nsdl.com (iii) Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

www.hselnda.com and www.bselnda.com.
In case of any queries before or during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or e-mail at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, NSDL, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or Sonis@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994559 or our RTA at admin@mcsregistrars.com or 011-41406149-52.

For DCM Limited

Place: Delhi Date : August 26, 2020 Vimal Prasad Gupta Company Secretary & Compliance Officer Website: www.neerajpaper.com Email:mansi@neerajpaper.com Landline: +91-11-47527700

Landline: +91-11-47527700

NOTICE

Notice Is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 20.15, meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 4th September, 2020 at 11:00 A.M. at the registered office of the company inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Result for the quarter ended 30.06.2020 and to approve the notice of 25th Annual General Meeting and Board Report for the FY ended 31st March 2020.

Board Report for the FY ended 31st March 2020.

For this purpose the trading window for director/officer/designated employees/
Promoter covered under the code of conduct for prevention of Insider Trading pursuant to Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 has been already closed till 48 hours after the approval of Unaudited Financial Results for quarter ended 30.06.2020. Further details of this notice are available on website of the company at www.neerajpaper.com and may also available on the Stock Exchange at www.besindla.com.

For Neeraj Paper Marketing Ltd. Date: 26/08/2020 (Mansi)
Place: Delhi Company Secretary

Place: Delhi Company secretary

FORM NO. INC-25A

ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF

PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NORTHERN REGION

In the matter of the Companies Act, 2013, section

14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of M/s. Garg Pipes Limited having

its registered office at Sangrur Road, Dirba Distt

Sangrur-148035, Punjab, IN,

.......Applicant

Sangrur-148035, Punjab, IN,Applicant
Notice is hereby given to the general public that
the company intending to make an application
to the Central Government under section 14 of
the Companies Act, 2013 read with aforesaid
rules and is desirous of converting into a private
limited company in terms of the special resolution
passed at the Extra Ordinary General Meeting
held on 21.08.2020 to enable the company to
give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected
by the proposed change/status of the company
way deliver or cause to be delivered or send by
registered post of his objections supported by
an affidavit stating the nature of his interest and
grounds of opposition to the concerned
Regional Director (8-2 Wing, 2nd Floor
Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi
- 110003), within fourteen days from the date
of publication of this notice with a copy to the
applicant company at its registered office at the
address mentioned below:

Sangrur Road, Dirba Disti

nt company
s mentioned below

Sangrur Road, Dirba Distt
Sangrur-148035, Punjab, IN
For and on behalf of the Applicant
M/s Garg Pipes Limited
Sd/

Date: 25/08/2020 Place: Sangrur

(Director)

Dharambir Singh DIN: 08194242 an, Trilokpur, Sirmaur, Iimachal Pradesh, IN

FORM NO. INC-25A ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY

PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NORTHERN REGION
In the matter of the Companies Act, 2013, section
14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the
Companies (incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of Mis. North India Agro Limited
having its registered office at SCO 27 New Grain
Market Dirba, Distt Sangrur-148035, Punjab, IN,
Notice is hereby given to the general public that
the company intending to make an apolication

.....Applicant
Notice is hereby given to the general public that
the company intending to make an application
to the Central Government under section 14 of
the Companies Act, 2013 read with aforesaid
rules and is desirous of converting into a private
imited company in terms of the special resolution
passed at the Extra Ordinary General Meeting
held on 21 08.2020 to enable the company to
give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be a ffacted

give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director (8-2 Wing, 2nd Floor Panyavaran Bhawan, C60 Complex New Delhi - 110003), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

SCO 27 New Grain Market Dirba, Distt

SCO 27 New Grain Market Dirba, Distt Sangrur-148035, Punjab, IN

For and on behalf of the Applicant M/s North India Agro Limited

Date: 25/08/2020 Place: Sangrur

(Director)

25/08/2020 (Director) Sangrur Sita Ram Sharma DIN: 06860210 Address: 293, Triveni Sadan, Dr. Beni Prasad Wali Gali Ward 4, Main Bazar Naraingarh 134203, Haryana, IN

New Delhi

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं0. 2050 से 2052, दुसरा तल, प्लाजा—॥, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदु राव, दिल्ली—110006 CIN- L74899DL1889PLC000004 फोनः 011-41539170 ई-मेल खाईडीः investors@dcm.in, वेबसाइटः www.dcm.in

सूचना (ढीसीएम लिमिटेड के इविवटी शेयरझारकों के ध्यानार्थ)

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015, समय—समय पर यथासंशोधित के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') और भारतीय प्रतिमूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना एजीएम सूचना दिनांक 26 जून, 2020 में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए डीसीएम लिमिटेड के सदस्यों की 130वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विद्धियों कॉन्क्रेंसिंग ('वीसी'')/ अन्य ऑडियों विद्धियों माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आायोजित की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित एमसीए एवं सेबी परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में 130वीं एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीसी/ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिश के ब्राह्म निर्देश और निष्पादित किये गये वाले व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के लिए प्रक्रिया एवं निर्देश तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ व्याख्यात्मक विवरण दिये गये हैं, उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता वर्ष 2020 के लिए एमसीए एवं सेबी परिपत्र(त्रों) के माध्यम से हटा दी गई है। उपरोक्त दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक मेल करने की प्रक्रिया 2 सितम्बर, 2020 तक या उससे पूर्व समाप्त हो जाने का अनुमान है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित के नियम 20 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं विनियम, 2015 (सूधीयन विनियम) के अनुपालन में कंपनी को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने में अपने सभी सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग सुविधा एवं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करते हए खुशी हो रही है।

सदस्यगण जो भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना के साथ वितीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सदस्य का नाम, पूरा पता, फोलियो नम्बर, कंपनी के धारित श्रेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की एस स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी और कंपनी के पास पंजीकृत अनुसार सदस्य के पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज की एक स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी के साथ विधि ू गवत् हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी ई—भेल investors@dcm.in या admin@mcsregistrars.com पर भेजकर अपना ई—गेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। डिमेट प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे अपडेट करा सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उपरोक्त स्कैन दस्तावेजों के आधार पर ई—मेल पता अपडेट/पंजीकृत कराना वल 130वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2019—20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के प्रयोजन के लिए हैं और 130वीं एजीएम के बाद आरटीए द्वारा तुरंत रिकार्ड को हटा लिया जाएगा। आपको कंपनी से भविष्य में इलेन्द्रीनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपन्न आदि सहित सभी भावी पत्राचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल के वास्तविक पंजीकरण हेतु आरटीए को उपरोक्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ ई-मेल आईडी पंजीकरण के लिए अनुरोध भेजना होगा।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- रिमोट ई-वोटिंग अवधि 22.09.2020 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24.09.2020 को साय 5.00 बजे समाप्त होगी; ख.
- ग रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए योग्यता के निर्घारण हेतु कट-ऑफ तिथि 18.09,2020 है;
- कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और कंपनी द्वारा सूचना को ई-मेल के घ. माध्यम से भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को भौतिक / डिमेट शेयर घारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या कंपनी के राजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी एवं पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यही प्रक्रिया सत्यापन हेतु विवरण जैसे फोलियो नं., डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी, पैन (स्कैन कॉपी), डिमेट खाता विवरण के साथ उन डिमेट / भौतिक पद्धित में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा भी पालन की जा सकती है जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है;
- रिमोट ई-वोटिंग 24.09.2020 को सायं 5.00 बजे के बाद समाप्त होगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा इसे हटा लिया जाएगा। यदि सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है तो उसके बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी;
- सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है उनके लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं दिया हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी;
- कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रिजस्टर में पंजीकृत है, केवल वहीं रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने के लिए हकदार होंगे;
- ई—वोटिंग और रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया <mark>को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के</mark> लिए सश्री प्रगन्या परिमीता प्रधान, प्रगन्या प्रधान एंड एसोसिएटस की मालिक, कंपनी सचिव (सीपी नं. 12030) को समीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है;
- यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकता ने जेन जो हैं सदस्य अपना पासवर्ड मूल जाता है तो वह www.evoing.nsdl.com पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य अपना पासवर्ड मूल जाता है तो वह www.evoing.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉर्गेट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" का उपयोग करके इसे रिसेट कर सकता है या एनएसडीएल से निम्नलिखित टोल फ्री नं. 1800-222-990 या ई—मेल evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकता है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (i) कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in (ii) एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com (iii) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com एव www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान किसी भी पूछताछ के लिए आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—बोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई—मेल evoting@nsdl.co.in पर या एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक या सुत्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, एनएसडीएल से उनके पदनामित ई-मेल evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन +91 22 24994545, +91 22 24994559 या हमारे आरटीए से ई-मेल admin@mcsregistrar.com या 011-41406149-52 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते डीसीएम लिमिटेड

हस्ता /-विमल प्रसाद गुप्ता

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

र, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग गाजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 275/2019

ऋण वस्तुली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब्-सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय—समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित ह की सचना डायरी संख्या 339

दिनांक: 24.08.2020

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स शीतल समृद्धि ग्रामीण पर्वतीय एवम् ग्रामोदयोग महिला संस्थान एवं अन्य

राज्या, ... 1. मैसर्स शीतल समृद्धि ग्रामीण पर्वतीय एकंम् ग्रामोदयोग महिला संस्थान, रजिस्टर्ड ऑफिस मकान नं0 3. लेन ए-1, माता मंदिर कॉलोनी, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड— 248121, इसके वर्तमान प्रबंधक और कोषाध्यक्ष श्रीमती रोशनी कोठारी।

- 2. रोशनी कोठारी पत्नी चंडी प्रसाद कोठारी, मकान नं0 2/72, माता मंदिर कॉलोनी, अजबपूर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248121।
- 3. आर्यन भृगु पुत्र गघुनाथ भृगु, निवासीः मकान नं० 3, लेन ए-1, माता मंदिर कॉलोनी, अजबपुर कला, देहरादून, उत्तराखण्ड— 248121। 4. कंचर रावत पुत्री सुरेन्द्र सिंह रावत, निवासीः मकान नं० 3/92, माता मंदिर कॉलोनी,
- अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248121।
- बबीता भृगु पत्नी आर्यन भृगु, निवासीः मकान नं0 3, लेन ए–1, माता मंदिर कॉलोनी, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248121 ।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 26,25,694.56/— की वसूली हेतु ओ0ए० सं0 275/2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन/नोटिस जारी किया था जो कि

र्ष दिवालियापन आधानयम्, 1993 को धारा 1916) के सम्मन् नाटिस जारी किया था जा कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 21.08.2020 को सूचीबद्ध किया गया था। यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 08.10.2020 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगृत रूप से अथवा अपने अधिकृत एंजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित स अध्यो अपने आधकते एजेंग्ट यो लोगल प्रोवटशनर के माध्यम से मोनाया दूरकूनल ने उपाश्यक्त हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ0ए० में दी गई राहत की अनुभति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल म आपका उपास्थात का यूक पर पर में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

<u>नोट</u>— वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से, मोबाइल नं0 95600—72676 या डीआरटी आधिकारिक ई—मेल आईडी registrar driddn@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क करें। ई-मेल आईडी के विवरण के साध्य-साथ व्हाट्सएप सक्षम मोबाइल नम्बर के साथ कम से कम तीन दिन पहले। ताकि वी०सी० के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने के अग्रिम में लिंक प्रदान किया जा सके। दिनांक 24 अगस्त, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

द्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून (中).)— 95600—72676, (31)—0135—2720854

5 बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन : L51909DL1983PLC016907

जी-4, बी-1, एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिय इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नर्ड दिल्ली-110044

दरभाष नं : 011-45795002, फैक्स : 011-23755264

ई-मेल : compliance@blsinternational.net, चेबसाइट : www.blsinternational.com बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की 36वीं वार्षिक आम बैठक

कम्पनी के सदस्यों से एतद्वारा नोट करने के निवेदन किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रयोज्य प्रावधानों, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 05 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र''), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (''सेबी सुचीबद्धता विनियम'') के अनुपालन में 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों पर लेन-देन के लिए बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 36वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 03.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी।

36वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश एवं वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 उन सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे जिनके ई–मेल पते आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार के पास 22 अगस्त, 2020 तक उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे निवेदन है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में अपने डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा कम्पनी के शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए'') के साथ compliance@blsinternational.net/ beetalrta@gmail.com पर इसे पंजीकत करा लें।

36वीं एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट https://www.blsinternational.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.com पर उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुरितका मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

कम्पनी अपने उन सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') प्लेटफॉर्म के माध्यम से 36वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग दोनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार की सुविधा उपलब्ध करायेगी जिनके नाम 14 सितम्बर, 2020 (शुक्रवार) ''कट-ऑफ तिथि'') तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे। सदस्य जिस . भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसकी रीति सहित ई–वोटिंग की प्रक्रिया के निर्देश 35वीं एजीएम की सुचना के भाग के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

जिन सदस्यों के पास डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं और वे अपना बैंक विवरण उपलब्ध/परिवर्तित/शुद्ध कराना चाहते हैं, वे इसे तुरन्त कम्पनी के पास न भेजकर सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के पास भेजें। सदस्यों से अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को अपने बैंक खाते का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड भी उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाता है। लाभांश का भुगतान करते समय आरटीए डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध डेटा का ही उपयोग करेगा। ऐसे डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले में जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण जैसे बैंक का नाम तथा शाखा का पता, शाखा का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार तथा खाता संख्या आरटीए के पास ई-मेल द्वारा beetalrta@gmail.com पर जमा करने का परामर्श दिया जाता है।

कते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

夜/-शिखर अग्रवाल

संयक्त प्रबन्ध निदेशक (डीआईएन : 06975729)

दिनांक : 26 अगस्त, 2020 स्थान : नई दिल्ली

स्थानः दिल्ली

ANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Registered Office: 11º Floor, birnin Usruh 23, Benehande Roue, New Debb 1900'l Cilk: 13100E31978FUC105942, Phone No. 01 - 4302109, Fax No. 01 - 4151333 E-mail: 1406E445Manglegopper 19. Website own landsmitterparty in 44° ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING An "Assistation Centification Water land for the Hill ST Herobolder Motific Conference Conference Water in Indian proceedings of the Hill ST Herobolder Motification States (Indian States) and the Hill ST Herobolder Water States) and the Hill ST Herobolder Water ST Herobolder ST Her

no est complamyor e que cousce; he alteresta notion de 4 mSMI altors atils Annual Report will be made airestable on de-rebasto o li he Company (e. alt over undistante person e, and on the verbule of stock-companyes via: ESSI Limited and visational Stock Exchange of India Limited at sew balletos com and lever stelleds coin respectively. The above information is, also adiabation on the said electricis.

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Color Spot, Byculla (E), Phone: 23748048 / 23714748. FCA Communications, Nariman Point, Phone: 40020550 / 51.

Fulrani Advig, & Mkig. Antop Hill Phone: 24159061 Mobile: 9769238274| 9969408835

J.K. Advertisers, Horninsal Circle, Fort. Phone: 22663742.

Mani's Agencies, Opp.G.P.O. Fort. Phone: 2263 00232. Mobile: 9892091257.

Pinto Advertising, Mazagaon. Phone: 23701070. Mohile: 9869040181.

Sasjan Advertising, Tardeo, Phone : 66626983

S. Arts Advtg. Masjid

Sanjeet Communication Fort. Phone: 40024682/ 40792205.

Ganesh Advertising, Abdul Rehman Street, Phane: 2342 9163 | 2341 4596.

t For Landmark Property Davelopment Company Limited Sdi

Taj Publicity Services, Byculla (W), Pluone: 2305 4894. Mobile: 9892011371. Yugarambha Advertisin Girguon, Pluone: 2386 8065. Mobile: 9869074144.

CENTRAL MUMBAI Aareuu Publicity Dadar (E), Phone: 022-65881876 Mobile: 9320111876

B. Y. Padhye Publicity St Thidur (W), Phone: 2422 9241/ 2422 0445.

Hook Advertainment Dudur Mobile: 3691800888

Jay Publicity, Dadar (E), Phone: 24124640

Pallavi Advig. Dadar (W), Mobile: 9869109765

Shree Swami Samarth Dadar (W), Phone: 24440631 Mobile: 9869131962

Stylus Arts, Dadar (W), Phone: 24304397

Time Advertising, Matunga (W), Phone: 2446 6191

Vijaya Agencies, Dudar (W), Phone: 2422 5672.

AXIS BANK LIMITED

icis: L86110631969P.C0207099 Corporate Diffice: Structured Assess Group, "Aris Heuse", 1th Floor, Corporate Diffice: Structured Assess Group, "Aris Heuse, Allow Months Allows

The assignment shall be an Coch Casts only.

Bidden shade coche in a Expension of Internet SAS, augmenting their internet in conducting the first different and acquiring the field on the first SAS (a.g. 1, 2020.

The CBI should be a multical to assign the propriate IMPRATION OF A common and the same and

ENT OF DUES

Tonelines 3 Sep 2020 2 Sep 2020 to 16 Sep 2020 16 Sep 2020 17 Sep 2020 13 Sep 2020

INVITATION FOR ASSIG

he schedule of procedure and timplicus for the bid are as under Bid Fracess E Trust outes

1. In polarist furnession of interest
in far Day Useprope
se Date

ece of Successful Hidder

Central Advertising Agency, Mahim (W), Phone: 24468656 | 24465555 Charudatta Advertising, Mahim (W), Phone: 24221461

DATEY Advertising, Datey Bhavan, Dudar (W) Mobole: 84528469791 9930949817

Transfer 1994 LCC 17995
Transfer 1994 LCC 17995
Transfer 1994 LCC 17995
Tel. (91) 22 2027 729 7995 FAX (91) 22 2077 729
Websile were resident for consent one consent of consent one consent of consent one consent on conse

NOTICE int to Regulation 29 read will stign 47 of the SEBI (Listin values at 7 of the SSEB (Elissing pitting and Discovines Requestered); indicate, 2019 NOTICE is heavy groun Alwelling of the Discovine of Discovine of New York (No. 1977); heavy for the Company of Newtonian three discovines of Company of Newtonian to 200 J. J. Road, Bycalla, Marchel Go, Sterd-alla, to conceive approve and on record the Unsatolited Francisco-in control the Unsatolited Francisco-tin of the Company of Newtonian to the Com

For RISHABH ENTERPRISES LTD.
Sd.
Sunil Y. Surviv

Niraj Cement Structurals Limited

IEL LIMITED

E-mail: iel@nanavatigroup.com, Website: www.nanavatigroup.com CIN: L15140MH1958PLC009720 EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE: 2020.

merry known as Indian Extractions Limited) avati Mahalaya, Homi Mody Street, Fort, Mumbai Tel.: 022/22044422, Fax: 022-22045024

(2.97)

egd. Office: Niraj House, Sunder Haug, Near Donar Bus Depot, Chembur (E), Mumbai Mumbai -400088, E-mail Id:cs@niraj.co.in, Phone No.: +91 22 66027100

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SBB (Listing Obli Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that of Directors of the Company is scheduled to be held on Wed 2020 at the registered office of the Company; inter-alia, to cor Ura-Audited Financial Results of the Company for the quarte and any other matters, if any.

Piace: Mumbai Date: 26th August 2020

otal Income from Operations 61 Protectors for the period (bators factors) coeptional and/or extraordinary items 61 Protectors for the period bators factors factors for the period bators factors for extraordinary

in the company of the control of the

TRANSPORT TO THE STATE OF THE S

The country of the Co

Director Place : Mumbai Din : 00065166 Date : 26.08 2020

ended 31.03.2020 3 (Audited) 7ear ended 31.03.2019

mbers are informed that:

the remote e-voting shall commence on 22.09.2020 at 9.00 A M; the remote e-voting shall and on 24.09.2020 at 5.00 PM;

ervice during the AGM is 18,09 20201 any restors, who acquirers sharps of the Company and becomes Members of the company after analogic of Notice by the Company and modifing physical center shares also the cus-off state, may obtain the login ID and password by senting analogic and sharps of the Agman and the Company is define affective and Transfer Appet (TAT) of the Company is defining featuring states are in the same procedure may be Stakend by Members shading man is Levelat Psychiat mode with laws for registered schools their Ernal IDs with serification decided such as tasks or to. (LP IDS Client ID. PAS (Stakend) Days, Name acquired seasons.)

For DCM Limited Sdf

Sd Vimal Presad Gupt Company Secretary & Compliance Office Place: Dethi Date : August 26, 2020

DCM

Regd, Office: Unit Nos. 2936 to 2052, 2° Filtor, Plaza-II, Cantral Square 29, Manohar Lai Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 Chib. L'1489-U. 1489-U. (2000) 10 11-110006 Email fic investors@dcm.in: Websit: www.dcm.in

IZO issued by the Storumbes and Eachings Board of India "SEBI Criticals"; instead to above memorised MEA & SEBI Criticals*; 1840co of 370 ACM, and planning the procedure and instructions for profit certains; instead to ACM through the set of the procedure and instructions for profit certains; instead to ACM through point and set of the procedure and eliminate of the instruction of the challego point. ACM will be set only through electrons made for those Memories paged and devices are an englished with MEA and ACM and Annual Report to the Memories within procedure and according to the Set of the ACM and Annual Report to the Memories or been designed with Web MEA and SEBI Chrosopolo of the by ware 250 and the set of the set of the ACM and Annual Report to the Memories or been designed as why MEA MEA and SEBI Chrosopolo or the year 250 and the set of the set of the year 250 and the set of the set of the year 250 and the set of the year 250 and year 250 a

we Signature 2. 2020 suspens to Section 195 of Comparises Act. 2013 and Role 20 of the Datapase to Section 195 of Comparises Act. 2013 and Role 20 of the Datapase to Section 2014 of the Section 2014 of the

articipants: A size not shall be updation-in-partial or of great addresses on the basis of the ab-control concurrent with brainly for the purpose of sending the notice of 13.9° ALM mans (Seports) (2.9°) and internation stated to disable from the recurris of the 1-ba-mentialize) after the 130° ACM. The wall therefore be required to part of the times controlled to the controlled to the

the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote a-voting on-vote during the AGM is 18 09 2020.

(stanning copy), filminal actions it statement; the minote e-vising paid and of a 50 PM on 24 CO 92000 and therauther shall be tideables by 1500. Choo his visite on a Recentain is cast by the Moreace, the Member mail and the allowed or Contegor is phaseparent; the x-voting facility will be available, during the ACM along for the Members specific have not clear the river the Proprise recentage or voting. Members who have count be-valed by member e-voting prior to the ACM many sizes perforable in the ACM through VCOAMP Facility but what in the facility of the VCOAMP facility to the propose of proprise voting the proposed of the Proprise of members on in the Register, only a person, whose remain is recorded in the Register of members on in the Register of Secretical Characters in another to the the depositions as on the or you'd distingt the estimate to make this stacking of remotion is voting or in-voting during the ACME.

majores. If a person it a person's agent and with NSIII, for remotive a vizing lines undiging or 10 and password PMIN or castiny oval in the west of a Nemther disputally secure to be caused in the mether big sized. Prompt the Castical/Password motion analyse vectoring mod come or constact NSOII, at the bit lines not: 1000-222-994, doing not extend any opening general cours.

a ASIM Notice and Anneal Report with a markable on the recisions of (i) the Computer water of the Computer of the Co

www.neiensta.com and www.biendia.com.

Londorf progrouped behavior of uring the CALL you may refer to the Fringuestry Ack
leaditions (FACI) for Members and d-virsing user manual available at the counties
closed from a charge a working section on or e-mail at everying prices of our to create
SCE, at the loss free no. 1800 222-2590 or context file Fallare, Market: Manager
SCE, at the loss free no. 1800 222-2590 or context file Fallare, Market: Manager
SCE, at the Call file of the CALL file of the CALL file of the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file of the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file
SCE, at the CALL file of the CALL file
SCE, at the

Tulasee

Regd. Off. & Fact. Address: 410 & 415 Village Labop. Lohop Chowk Rd., Tall. Khallagur. Dist Raligard, Maharashtra, Pin Code: 410202 Email ID: talesseebio@gmail.com
Notice Tot. For Annual Ceneral Meeting of the member of Tulasee Bio-Edmand Limited The Company' will be held on Saturd 20th September, 2020 at 11.00 am through Audio Video or other Audio 20th September, 2020 at 11.00 am through Audio Video or other Audio Consequence of Tulasee Bio-Edmand Limited The Company' will be held on Saturd 20th September, 2020 at 11.00 am through Audio Video or other Audio Consequence of the Consequence of the Audio Consequence

By order of the Boar For TULASEE BIO-ETHANOL LIMITE

Kapil Lalitkumar Nagpa Managing Directo DIN: 0192933

Place : Raigad Date : 27/08/2020

TRF LIMITED A TATA Enterprise
Regulatered Office: 11. Station Road Burna libre; Januariday - 63160°
Phona No. 080° 2007 25 E-mil : Corp.; Sec@ir on in
Westells: verul McColl.
OC. LATO CONTROS (ODOSTO)

PUBLIC NOTICE - 57™ANNUAL GENERAL MEETING

PUBLIC NOTICE — 57" ANNUAL GENERAL MEETING
This is be liften that in view of the activities of COVID-19 predicting. bit 57-km at 18 factors and in view of the activities of COVID-19 predicting. bit 57-km at 18 factors and 18 factor

The 57 Annual General Neering of the Members of TRF Limited will be hald on Frish September 18, 2020 at 3,00 p.m. (IST) through VCIOAVM facility provided by Nation Securities and Depositions Limited (NSDL*) to termsect the businesses as set out in Needec convenient to the ASM.

Notice convening the AGM.

The accept of the Notice of the AGM along with the Annual Report for it 2019-20 (the "Annual Report") of the Company will be available on the 2019-20 (the "Annual Report") of the Company at www.

www.bserodu.com, www.tsendou.com and www.cse-odu.com respectively.

Members can anternal and pretrioques in the ARM ONLY through the VCO/QAM lacid dealls of which will be provided by the Catigotisty in the Notice of the Microcomplex of the provision has been made to batter and prainticipate of the Company in person. to ensure compliance with the derectives are the operament and instriction with respect to COVID-19. Members altering the work of the Company in person. The service of the purpose of motioning the quorum Section 100 of the Companies AL, 2013.

section 100 of the Companies Ac, 2013.

The Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company; P Repliciture S Transfer Agent (Repliciture ST AGM Repliciture ST AG

rocess to be followed for one time registration of e-mail address is as

What the link: https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/r
 Enter the DP ID & Client ID/Physical Folio Number and PAN datalls, in the event, PAN details are not available on record for Physical Folio, Member to enter one of share certificate numbers.

After successful submission of the e-mail address, NSDL will e-mail a copy of this AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2018-20 along with the e-Voting user ID and password. It case of any quarter, Members may write to equi-put-plicipus-plicinarisates.com even-oring-genduclus. For premanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form.

S. E. Railway Ten

Tender, jave-vergesspanis, care victor one only or tenesce. Philimary information informations of Pilled of they process related details will be shored unit. Philimary information information of Pilled of they process related and the Pilled of the Pill nder different, mars figselon, suspicio en direkterolden insoficazion. disperzi calipsembre refiliazioni chi il septembre le pri tre giarinogaling flodest ari trese senzi. E protesse di unimistationi di cue effect, i challi be demonet dian di se un single si considerationi della considerazioni di cue effect, i challi be demonet dian di septembre si considerazioni di cue effect in challi be demonet dian di septembre di cue effetti di cue d

Times and confinition of the liabilities grow vary, ideas profits the Bearran Priese, shall be provided to the apprinting authorities from only the liabilities. Confidence and or confining on the such that is related to the district between the confidence and or c JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE INVITING BID

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/09/2020-21

5. No.	Zone	Jeb No.	Name of Work	Cost of Work (Lacs)	Last Date Bid Invited Online	
l.	Executive Engineer-11	072/ 2020-21	Various Development Work in APJ Abdul Kalam Nagar in Zone-H, JDA, Jaipur, UBN No.: JDA 2021 W SOB00149	215,00	15.09.2020 Up to 6.00 PM	
2.	Executive Engineer-14	071/ 2020-21	Construction of Internal Roads upto GSB level, Majar Roads in two lane with BC, Demarcation Pillars in Hira Laf Shastri Nagar, JDA Scheme, Zone-14, JDA, Jaipur.	288.00	14.09.2020 Up to 6.00 PM	

Details may be seen in the Procureme and www.jda.urhan.rajasthan.cov.in Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-I

LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Oelhi-110006 CIN: L'7489DL 1889PLC000004 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-41539170 stors@dcm.in Phone: 011-41539170

EXTRACT OF THE UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

									(Re in Lace
Sr. No.		Standalone				Consolidated			
	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	For the quarter ended			For the year ended
		June 36, 2626 Unaudited	March 31, 2020 Audited	June 20, 2019 Unaudited	March 31, 2020 Audited	June 30.2020 Unaudited	March 31.2020 Audited	June 30, 2019 Unaudited	March 31, 2020 Audited
1	Total income from operations	(28)	(37)	7,596	12,890	1,118	1,168	8,928	18,609
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)-continuing operations	(596)	(646)	(1.192)	(3.274)	(604)	(494)	(1,277)	(2.746)
3	Net Profit! (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)-continuing operations	(698)	(646)	(1,192)	(3,274)	(604)	(494)	(1,277)	(2,746)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after lax (after exceptional and extraordinary items) -continuing operations	(596)	(646)	(1,192)	(3,218)	(630)	(523)	(1,277)	(2,931)
5	Nat Profit! (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) -discentinued operations	-		37	144				-
ě	Net Profit! (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) -discontinued operations			37	144				
7	Net Profit! (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) -discontinued operations			37	144	,			
8	Profit/(loss) for the period	(598)	(846)	(1,155)	(3,674)	(630)	(523)	(1,277)	(2.931)
9	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Lisss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax))	(596)	(610)	(1,160)	(3,110)	(630)	(470)	(1,282)	(2,931)
10	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,867	1.868	1,868	1,868	1,887	1,868
11	Other equity		,	,	(448)				(2,063)
12	Earnings/ (loss) per equity share (EPS) of Rs. 10/- each (not annualized)								
1	Basic and diluted - from centinuing operations	(3.19)	(3.46)	(6.38)	(17.23)	(3.37)	{2.80}	(6.84)	(15.69)
	Basic and diluted - from discontinued operations		×:	0.19	9.77			. ,	
	Basic and diluted	(3.19)	(3.46)	(6.19)	(16,46)	(3.37)	(2.80)	[6.84]	(15.69)

Place: Delhi Date: August 26, 2020

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on August 26, 2020. The Limited Review Report of the Statutory Auditors has been filed with the 8SE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Managing Director DIN: 60272936

financiales epar.in

00 0

00 0

. . .